



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 आश्विन 1937 (श10)

(सं० पटना 1204) पटना, वृहस्पतिवार, 8 अक्टूबर 2015

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

अधिसूचना

4 सितम्बर 2015

सं० 1777—श्री श्री 108 उग्रनाथ महादेव मंदिर (उगना मंदिर), ग्राम—भवानीपुर, पो०—पंडौल, थाना—सकरी, जिला— मधुबनी धार्मिक न्यास पर्षद के अंतर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है जिसका निबंधन संख्या 3903 है।

न्यास के सुचारु प्रबंधन के लिए पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक 2038 दिनांक 13.01.2010 द्वारा बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा-32 के अन्तर्गत ग्यारह सदस्यीय न्यास समिति पाँच वर्षों के लिए गठित की गयी थी। न्यास समिति अपने कार्य-कलाप में पूर्णतः विफल रही। न्यास समिति द्वारा अपने कार्यकाल में कभी भी आय-व्यय विवरणी, बजट एवं अंकेक्षित प्रतिवेदन पर्षद को सम्यक् रूप से प्रेषित नहीं कर पायी। न्यास समिति के बैठकों का कार्यवृत्त एवं न्यास द्वारा पर्षद को देय शुल्क का भुगतान भी कभी नहीं किया गया। न्यास समिति का कार्यकाल दिनांक 20.01.2010 से पांच वर्षों के लिए निर्धारित किया गया था जो कि पूरा हो चुका है।

तत्पश्चात् पर्षद के निरीक्षक द्वारा न्यास का स्थानीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि इस प्रसिद्ध मंदिर में लाखों का वार्षिक आय है। दूकान किराया तथा पोखरा से लगभग तीन लाख और दान/चढ़ावा से लगभग चार-पाँच लाख रुपये की वार्षिक आय की जानकारी मिली किन्तु न तो आय-व्यय में शुचिता एवं पारदर्शिता है और न इसे विकाश तथा दान कल्याण के कार्यों में व्यय किया जाता है। स्थानीय लोगों ने इस न्यास समिति के प्रति नाराजगी है। इस तरह यह समिति अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत कार्य करती है तथा पर्षद के आदेशों/निर्देशों का भी अवहेलना की है। निरीक्षक ने न्यास समिति के गठन हेतु स्थानीय भक्तों से विमर्श कर ग्यारह नामों का अनुशंसा की है।

चूँकि न्यास समिति का कार्यकाल पूरा हो गया है, अतः इस न्यास की सुरक्षा, सुव्यवस्था तथा सम्यक् विकास हेतु बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा-32 के तहत एक योजना का निरूपण तथा नवीन न्यास समिति का गठन आवश्यक है। अतः अंचलाधिकारी, पंडौल की अध्यक्षता में ग्यारह सदस्यीय न्यास समिति के गठन का निर्णय लिया गया है।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा-32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार, जो धार्मिक न्यास की उपविधि सं० 43(द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुये श्री श्री 108 उग्रनाथ महादेव मंदिर (उगना मंदिर), ग्राम—भवानीपुर, पो०—पंडौल, थाना—सकरी, जिला—मधुबनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, सुचारु

प्रबंधन तथा सर्वांगीण विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है तथा उसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम "श्री श्री 108 उग्रनाथ महादेव मंदिर (उगना मंदिर)" तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम " श्री श्री 108 उग्रनाथ महादेव मंदिर (उगना मंदिर), न्यास समिति ग्राम- भवानीपुर, पो0-पंडौल, थाना- सकरी, जिला-मधुबनी होगी" जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का प्रमुख कर्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा, विकास एवं सुसंचालन की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. इस न्यास समिति का प्रमुख दायित्व मंदिर में परम्परागत पूजा-अर्चना, राग-भोग, उत्सव-समैया आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक् प्रबंधन सुनिश्चित करना होगा।

4. मंदिर परिसर के दान-पात्र निर्धारित तिथि को न्यास समिति के दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर सत्यापित पंजी में प्रविष्टि के बाद बैंक खाता में जमा की जायेगी।

5. मंदिर में प्राप्त होने वाले सभी चन्दा, चढावा एवं मांगलिक/धार्मिक आयोजनों के लिए निर्धारित राशि के लिए दाताओं को उचित पावती रसीद दी जायेगी और उसका सम्यक् लेखा संधारण किया जायेगा।

6. न्यास समिति के आय-व्यय में शुचिता एवं पारदर्शिता रखेगी। जो न्यास समिति की असली चुनौती होगी।

7. मंदिर में आने वाले आस्थावान भक्तों के साथ किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं किया जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा। विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों त्योहारों आदि विशेष अवसरों पर भक्तों की सुविधा एवं सुरक्षा का ख्याल रखा जायेगा।

8. न्यास की समग्र आय समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखी जायेगी और बैंक खाता का संचालन समिति के अध्यक्ष या सचिव, एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के हस्ताक्षर से होगा।

9. न्यास समिति न्यास परिसर को स्वच्छ एवं अतिक्रमणमुक्त, यदि हो तो, रखेगी।

10. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित सभी प्रावधानों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा वार्षिक आय-व्यय का विवरण, बजट, देय शुल्क की राशि एवं बैठकों की कार्यवृत्त पर्षद को ससमय भेजेगी।

11. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष करेंगे। सचिव समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्तरूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष लेखा की सम्यक् संधारण के लिए जिम्मेवार होंगे।

12. न्यास समिति की बैठक सामान्यतः मंदिर परिसर में होगी। यह बैठक प्रत्येक तिमाही में कम-से-कम एक बार अवश्य होगी।

13. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

14. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास की सम्पत्ति से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से लाभान्वित होंगे अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

15. उपर्युक्त योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति गठित की जाती है:-

- | | | | |
|-----|--|---|--------------|
| (1) | अंचल अधिकारी, पंडौल, मधुबनी, | — | पदेन अध्यक्ष |
| (2) | श्री राम लषण दास उर्फ दिगम्बर जी,
ग्राम- कयटोला, पो0- शंभुआर,
थाना- पंडौल, जिला- मधुबनी | — | उपाध्यक्ष |
| (3) | श्री सूर्यवंशी ठाकुर, पिता-स्व0 कमलाकांत ठाकुर,
सेवानिवृत्त प्राध्यपक, ग्राम-भवानीपुर, पोस्ट-पण्डौल,
थाना-सकरी, जिला-मधुबनी | — | सचिव, |
| (4) | श्री पिताम्बर झा, पिता-स्व0 भागवत नारायण झा,
सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, ग्राम-भवानीपुर,
पोस्ट-पण्डौल, थाना-सकरी, जिला-मधुबनी | — | कोषाध्यक्ष, |
| (5) | थानाध्यक्ष, सकरी, | — | पदेन सदस्य, |
| (6) | श्री शत्रुघ्न दास पिता-स्व0 कौशीक दास,
ग्राम-भवानीपुर, पोस्ट-पण्डौल,
थाना-सकरी, जिला-मधुबनी | — | सदस्य, |
| (7) | श्री शम्भु नाथ झा, पिता-स्व0 दिनानाथ झा,
ग्राम-भवानीपुर, पोस्ट-पण्डौल,
थाना-सकरी, जिला-मधुबनी | — | सदस्य, |
| (8) | श्री मोहन मंडल, ग्राम-भवानीपुर,
पोस्ट-पण्डौल, थाना-सकरी, जिला-मधुबनी | — | सदस्य, |

- (9) श्री लक्ष्मी कांत ठाकुर, पिता—स्व० हरिकान्त ठाकुर,
ग्राम—भवानीपुर, पोस्ट—पण्डौल, थाना—सकरी,
जिला—मधुबनी — सदस्य,
- (10) श्री ध्यानी यादव पिता—स्व० तनुक यादव,
ग्राम—भवानीपुर, पोस्ट—पण्डौल,
थाना—सकरी, जिला—मधुबनी — सदस्य,
- (11) श्री विजय कांत झा, पिता—स्व० कपिलेश्वर झा,
पंडा प्रतिनिधी, ग्राम—भवानीपुर, पोस्ट—पण्डौल,
थाना—सकरी, जिला—मधुबनी — सदस्य।

यह योजना तत्काल प्रभावी होगा और इसका कार्यकाल 05 वर्षों का होगा।

आदेश से,
किशोर कुणाल,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1204-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>